FINANCIAL EXPRESS

stock exchange website i.e www.bseindia.com

Depository Participants as on cut-off date 01.09.2023.

admin@skvlinerta.com

Companies Act 2013.

Date: 06/09/2023

Place: New Delhi

purpose of ensuing Annual General Meeting

CIN: L51909DL1984PLC019485 Regd. Office: 9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi-110006 Tel. No.: 011-23517516-19, Email: Id-cs@neccgroup.com, Website: www.neccgroup.com CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Members, This is in reference to the Notice of Annual General Meeting dated August 25, 2023("AGM Notice") of North Eastern Carrying Corporation Limited ("the Company") to be held on Saturday, September 16, 2023 at 12.30 P.M. through Video Conference (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) facility, for seeking approval for matters contained in the said notice. The said notice has been duly dispatched to the shareholders of the Company on August 25,

2023 as per the applicable laws. The Company through this corrigendum wishes to bring to the notice of the Shareholders of the Company for Inclusion of Item No. 3 in the AGM Notice regarding revision in the remuneration of Mr. Utkarsh Jain, Whole-time Director of the Company along with the explanatory Statement. All other particulars and details as mentioned in the AGM Notice shall remain unchanged. The corrigendum shall be read in conjunction with the AGM Notice dated August 25, 2023 together with explanatory statement. This corrigendum is also available on the Company's website viz www.neccgroup.com, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com & on

the website of National Stock Exchange of India Limited at www. nseindia.com where the shares of the Company are listed.

For North Eastern Carrying Corporation Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Mamta Bisht



E-mail Id: compliance.officer@shemaroo.com Website: www.shemarooent.com **Transfer of Equity Shares of the Company to Investor**

Education and Protection Fund (IEPF)

Regd. Office: Shemaroo House, Plot No. 18, Marol Co-op Indl. Estate, Off

Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai – 400059,

Tel: +91 22 4031 9911;

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time ("the Rules"), inter alia provides that shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, are to be transferred to the Demat account

In compliance to the IEPF rules, the Company has communicated individually from time to time to the concerned shareholders at their registered address individually to claim the final dividend declared for the FY 2015-16 and the subsequent years dividend, and the proper individual notice through letters / email also has been served to the shareholders whose email IDs are registered with the Company/RTA records.

The complete details of the unclaimed / unpaid shareholders has been made available on the website of the Company at https://shemarooent.com/investors. The shareholders are requested to verify the details of the unclaimed dividend and shares liable to be transferred to the IEPF under the said rules for taking appropriate action on or before November 01, 2023. It may be noted that no claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend and shares transferred to the IEPF pursuant to the IEPF rules.

In case the shareholder is unable to claim the dividend by November 01, 2023. the Company shall with a view to complying with the requirements set out in the IEPF Rules, initiate necessary action for transfer of shares to the demat account of the IEPF authority as per the procedure prescribed under

In case of transfer of equity shares to IEPF, the members holding the shares in dematerialized form, the Company shall inform the depository by way or corporate action to transfer shares in the demat account of the IEPF

Members may also note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to IEPF authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF authority by submitting

an online application in the Form IEPF-5 available on the website at www.iepf.gov.in afterfollowing the procedure prescribed under the Rules. For any queries/information/clarification on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent,

M/s. Link Intime India Private Limited, Unit: Shemaroo Entertainment Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083;

Place: Mumbai

Hetal Vichhi

CIN: L74210TG1995PLC130199 Regd. Office: KNR House, 3rd & 4th Floor, Plot No: 114, Phase-I, Kavuri Hills, Hyderabad - 500033. Ph: 040 -40268759 / 61 /62, Fax: 040-40268760; website: knrcl.com; E-mail: investors@knrcl.com

IOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company 'KNR Constructions Limited" is scheduled to be held on Thursday, the 28th day of September, 2023 at 03.30 PM. through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact such items of business as set out in the Notice calling the 28th AGM

The Notice of the AGM was sent to the members of the Company through electronic mode along with the Annual Report for the financial year 2022-23, whose email addresses are registered with the Company/Depositories and the meeting shall be conducted without physical presence in accordance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 and January 13, 2021, 21/2021 dated December 14 2021 and 02/2022 dated May 5, 2022 and 10/22 dated December 28, 2022 (collectively

nave also been uploaded on our corporate website – <u>www.knrcl.com</u> and on the website Pursuant to the provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the

Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is providing e-voting facility to all its nembers holding shares either in physical or in dematerialized form to cast their vote electronically. The Board has appointed Mr. Vikas Sirohiya, Practicing Company Secretary for conducting the e-voting process in accordance with law in a fair and transparent manner. The Company has engaged the services of CDSL for e-voting facility and is available at <u>www.evotingindia.com</u>.

a) All the items of business may be transacted through voting by electronic means.

) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Thursday, 21st September, 2023 may cast their vote electronically on the items of business as set out in the Notice. The voting right of the members for e-voting and voting during AGM shall be in proportion to their shareholding in the paid up equity

d) The voting period commences on Monday, 25th September, 2023 (9.00 A.M.) and ends on Wednesday, 27th September, 2023 (5.00 P.M.). The e-voting module shall be disabled

by the CDSL thereafter and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it cannot be changed e) Any person who becomes a member of the Company after sending the Notice of the AGM

date, i.e., 21st September, 2023 may view the Notice of AGM on the website of the Company www.knrcl.com or on the website of CDSL - www.cdslindia.com Such person may obtain the login id and password by sending a request at evoting@cdslindia.com However if the person already registered with CDSL for remote e-voting, then he/she can cast the vote by using existing User Id and password and by following the procedure as mentioned in the Notice.

) Those members who attend the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM through VC/OAVM through CDSL e-voting system

) The member who cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again.

ı) The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can get the same registered with the Company for the purpose of this AGM by sending their Name and Folio No/DP ID and Client ID to rnt.helpdesk@linkintime.co.in (Email id of Company's Registrar and Share Transfer Agent) to receive the Notice of the AGM with login credentials for e-voting purpose, as the Notice to the members shall be given only through the email ids registered with the Company or with the depository participant/depository. For persons holding shares in demat shall contact their DP for registering their email id with the concerned demat

) For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section 'E-voting instructions' in the Notice of the AGM. Members having any queries or issues regarding e-voting may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk. evoting@cdslindia.com. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal

Mill Compounds, NM Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an

Members may contact Mrs. Haritha Varanasi, Company Secretary and Compliance Officer for any concern connected with e-voting by writing an e-mail to

By order of the Board

Place: Delhi

Date: September 06, 2023

of the IEPF authority.

GOENKA BUSINESS & FINANCE LIMITED Read, Office: 18. Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No.4.

2nd Floor, Roon No.17 Kolkata-700001 Corporate Office: Office No.9, Sadguru Complex, 4th Floor Shivraniani Cross Road, Satellite Ahmedabad 380015 CIN: L67120WB1987PLC042960 Website:

www.goenkabusinessfinancelimited.in E-mail Id:goenkabusiness1987@gmail.com Ph: 091 9375560002 **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 36th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the

members of GOENKA BUSINESS & FINANCELIMITED ('the Company') will be held on Thursday, September 28, 2023 at 04:00 P.M. through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the businesses as set out in the notice of the AGM. In accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and December 28, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/ HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 dated May 13, 2022, General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05,2023 the Company has sent the Notice of the 36thAGM along with its Annual Report 2022-23 on September 05, 2023 through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM along with the annual report has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular. The company has appointed National Securities Depository Limited ('NSDL') to provide its virtual platform for conducting the company's AGM through VC/ OAVM. The Annual Report of the company for the financial year 2022-23, inter alia, containing the notice of the AGM is available on the company's website at

Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. **BOOK CLOSURE NOTICE**

All shareholders of the company are informed that the Register of Members and the Share Transfer Books of the company will be closed from Monday, September 18, 2023 to Thursday, September 28, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM for financial year 2022-23.

www.goenkabusinessfinancelimited.inand also on the stock exchange website at

www.bseindia.com. A copy of the same is also available on the website of National

REMOTE E-VOTING

Pursuant to provisions of section 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote either through the remote e-voting before or during the AGM in respect of resolutions proposed to be passed at the 36th AGM of the company and for this purpose company has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the e-voting facilities. The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members

are requested to note the following: 1. The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-Voting Monday, September 25, 2023 at 10:00 a.m. End of remote e-Voting Wednesday, September27, 2023 on 5:00 p.m. *The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time;

entitled to vote through e-voting; 2. The members who are entitled to vote and participate in the AGM through VC/OAVM, and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting before AGM

3. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.inor may contact on toll free number 1800 1020 990, as provided by NSDL. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only;

For Goenka Business & Finance Limited

Swaminarayan Mandir, Shahibaug, Ahmedabad- 380004, Gujarat CIN L64204GJ2006PLC048908 • Phone: +91-79-25626470 Email: info@gtpl.net • Website: www.gtpl.net

COMPANY SEVENTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

GTPL Hathway Limited ("the Company"), scheduled to be held in compliance with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Friday, September 29, 2023 at 12:30 p.m. IST, and the standalone and consolidated financial statements for the Financial Year 2022-23, along with the Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on September 6, 2023, electronically, to the Members of the Company. The Notice of AGM and the aforesaid documents are available on the Company's website at https://www.gtpl.net/uploads/annual report/file/Annual%20Report %202022-23.pdf, and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of KFin Technologies Limited ("KFinTech") at https://evoting.kfintech.com.

The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection by the Members from the date of circulation of the Notice of the AGM. Members seeking to inspect such documents can

The Company is providing to its Members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means "e-voting"). Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of KFinTech as the agency to provide e-voting

voting remotely by Members holding shares in dematerialised mode physical mode and for Members who have not registered their e-mail address has been provided in the Notice of the AGM. The manner in which (a) persons who become Members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off Date (mentioned herein below), (b) Members who have forgotten the User ID and Password, can obtain/ generate the same has also been provided in the

The remote e-voting facility will be available during the following voting

End of remote e-voting

KFinTech upon expiry of the aforesaid period.

A person, whose name is recorded in the Register of Members as on the Cut-off Date, i.e. Friday, September 22, 2023 only shall be entitled

to avail the facility of remote e-voting or for voting through Insta Poll. Manner of registering/updating e-mail addresses:

 Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their e-mail address with the Company, are requested to register/update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of the company at www.gtpl.net) duly filled and signed along with requisite supporting documents to Link Intime India Private Limited, Registrar and Transfer Agent at 506 to 508, Amarnath Business Centre – 1, Beside Gala Business Centre, Near St. Xavier's College Corner, Off. CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat - 380 009.

registered/updated their e-mail address with the Depository Participants are requested to register/update their e-mail addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.

the "Help" and "FAQs" sections/E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads" section of KFinTech's website for e-voting: https://evoting.kfintech.com.

addressing queries/grievances, if any:

KFin Technologies Limited Selenium Tower B, Plot 31-32,

(from 9:00 a.m. IST to 6:00 p.m. IST on all working days)

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM, through

JioMeet, at https://jiomeet.jio.com/gtplagm. The information about the AGM.

Date : September 7, 2023 Company Secretary & Compliance Officer

The Cut-off date for the purpose of e-voting is Friday, September 22, 2023. Members whose names are appearing on Register of Members on Friday, September 22, 2023 are

shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM;

The members who have voted though remote e-voting before the AGM are also entitled

to attend/participate in the AGM through VC/OAVM but not entitled to cast their vote In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for

Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section By Order of the Board.

Yasin Gori

Date: 07.09.2023 Place: Ahmedabad

GTPL HATHWAY LIMITED Registered Office: 202, Sahajanand Shopping Center, Opp.

Notice calling the Seventeenth Annual General Meeting ("AGM") of

send an e-mail to complianceofficer@gtpl.net.

Commencement of remote e-voting 9:00 am. IST on Tuesday, Sept 26, 2023

Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote

In case of any queries pertaining to e-voting, Members may refer to

Toll - Free No.: 1800-309-4001

E-mail: evoting@kfintech.com

login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in Note no. 9 of the Notice of AGM. Members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at

Hardik Sanghvi

financialexp.epapr.in

Date: 6th September, 2023

Place: Agra

SABRIMALA INDUSTRIES INDIA LIMITED CIN- L74110DL1984PLC018467 Regd. Office: 906, D-Mall, Netaji Subhash Place, New Delhi-110034 Phone No: 011-41514958, Email: cs@sabrimala.co.in

Website: www.sabrimala.co.in

NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING,

REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

. Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the Members of the

Company is scheduled to be held on Friday, September 29, 2023 at 11:00 A.M through

video conferencing ("VC")/ other audio-visual means ("OAVM") to transact the

business as set out in Notice of AGM in compliance with applicable provision of the Act

2. Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid

I. The Physical copies of Notice of Meeting setting out the Ordinary and Special

Businesses to be transacted at the Meeting together with the Standalone and

Consolidated Audited Financial Statements for the financial year ended 31" March,

2023, together with Auditor's Report and Director's Report thereon have been sent to

the members who have not registered their email id with the Company/ Company's

Registrars & Share Transfer Agents to their respective registered addresses by post

and electronically to those whose email ids are registered with the Company/RTA/

Members who are holding shares in physical and their email address are not registered

with the Company, are requested to register their email address at the earliest by

sending a scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their

Name, Complete Address, Folio Number, Number of Shares held with the Company

along with self-attested scanned copy of PAN Card and self-attested scanned copy of

any one of the following documents viz, Aadhar Card, Driving License, Election Card,

Passport, Utility Bill or any other govt documents in support of address proof of the

Member as registered with the Company. Members holding shares in Demat form can

update their email address with their Depository Participants. In case of any queries is

registering the email address, members can write to Company RTA at

The facility of casting the votes by the members (e-voting) will be provided by Central

Depository Services (India) Limited and the detailed procedure for the same is

provided in the Notice of AGM. The remote e-voting facility shall commence on

Tuesday 26th September 2023 from 09:00 A.M (IST) and ends on Thursday 28th

September 2023 at 05:00 PM (IST). During this period, members of the Company

holding shares as on the Cut-off date i.e. Saturday 23" September 2023 may cast their

votes by remote e-voting or e-voting at the time of AGM. Members participating

through VC/OAVM shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the

5. Pursuant to the provision of Section 91 of Companies Act, 2013, the Register of

Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday

For Sabrimala Industries India Limited

Company Secretary and Compliance Officer

Radhika Tosniwal

24" September 2023 to Friday 29" September 2023 (both days inclusive) for the

PNC INFRATECH LIMITED

(CIN -L45201DL1999PLC195937)

Registered office: NBCC Plaza, Tower-II, 4" Floor, Pushp Vihar, Sector-V, Saket, New Delhi-110017

Website: www.pncinfratech.com, Email: complianceofficer@pncinfratech.com

Notice of the 24th Annual General Meeting, Book Closure, Record

Date for Dividend and E-Voting Information

NOTICE is hereby given to the Members of the Company and to all the

persons that 24th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be

held on Friday, September 29, 2023 at 01:00P.M. (IST) through Video

Conferencing (VC')/ Other Audio Visual Means ('OVAM') in

compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013

and the rules made thereunder (the 'Act'), provisions of the Securities

Exchange Board Of India (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with

General Circular No.10/2022 dated December 28, 2022 and all other

applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs,

Government of India ('MCA') and circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-

2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by the Securities and

Exchange Board of India ("SEBI") to transact the Business, as set out in

the Notice of the AGM (AGM Notice) without the physical presence of

In compliance with the aforesaid circulars, the AGM Notice and the

Annual Report of the company for the financial year 2022-23, has been

electronically sent on Wednesday, September 6, 2023 by the email to

those shareholders whose email addresses are registered with the

Company/Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private

imited/ Depository Participant(s). The said Annual Report including

AGM Notice is also available on the website of the Company at

https://www.pncinfratech.com/financials.html, on the website of

M/s Link Intime India Private Limited (Link Intime/"RTA") at

https://instavote.linkintime.co.in and on the website of the Stock

Exchanges i.e BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013

read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration)

Rules, 2014, as amended from time to time, provisions of Regulation 44

of the Listing Regulations, the Company is providing its shareholders

e-voting facility to cast their votes on all the resolutions set out in the

AGM Notice by using an electronic voting system from a place other

than the venue of the AGM (i.e. remote e - voting). The Company will

also provide a facility of e-voting to shareholders during the AGM, who

have not cast their vote by remote e-voting. The Company has entered

into an arrangement with Link Intime for providing the remote e- voting

In terms of Section 91 of the Act, Rules made there under and

Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulation') that the

Register of Members and Share Transfer Books of the Company will

remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Friday,

September 29, 2023 (both days inclusive) for the purpose of said AGM

Mr. Deepak Gupta, Company Secretary, Partner of DR Associates

(Membership No. FCS 5339; CP No. 4629), has been appointed as the

Scrutinizer to scrutinize the voting through electronic means in a fair and

transparent manner. The result of voting will be declared within two

working days from the conclusion of AGM i.e. on or before October 01.

2023 and results so declared along with the consolidated Scrutinizer

report will be placed on the Company's website

(www.pncinfratech.com) and Link Intime's website

A person, whose name is recorded in the Register of

Members/Beneficial owners maintained by the Depositories / RTA

as on the cut - off date i.e. Friday, September 22, 2023 shall only be

entitled to avail the facility of remote e - voting or e - voting during the

The remote e-voting period will commence on Tuesday, September

26, 2023 at 9:00 A.M. and ends on Thursday, September 28, 2023 at

5:00 P.M. During this period, the member(s) of the Company may

cast their votes electronically on resolutions mentioned in the AGM

Notice. Voting through remote e - voting shall not be allowed beyond

5.00 P.M. on September 28, 2023. Once the vote on a resolution is

The voting rights of the shareholders shall be in proportion to their

shares in paid-up share capital of the Company as on the cut-off

Only those Shareholders, who will be present in the AGM through

VC/OAVM and have not cast their vote on the Resolutions through

remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be

The shareholders who have cast their vote through remote e-voting

may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to

Any person, who becomes a member of the Company after sending

of the AGM Notice by email and holding shares as on Friday,

September 22, 2023, may refer to the AGM Notice to cast their vote

and obtain the login ID and password from Link Intime by sending a

In case shareholders/members have any queries regarding

attending AGM/e-voting, they may refer the Frequently Asked

Questions (FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at

https://instavote.linkintime.co.in, under help section or Contact

Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President-e-voting, Address-Link

Intime India Pvt. Ltd, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West,

Mumbai-400083 on Phone: +91 22 49186000 or e-mail:

enotices@linkintime.co.in or contact undersigned by writing an

e-mail to complianceofficer@pncinfratech.com, a phone no.

The Company has fixed Friday, September 22, 2023 as

"Record Date" for determining entitlements of members for

receiving Dividend @25% i.e. Rs. 0.50/- (Rupee Fifty Paise only)

By Order of the Board of Directors

For PNC Infratech Limited

Company Secretary &

Compliance Officer

M. No: A22603

made on or before Saturday, October 28, 2023.

eligible to vote through e-voting system available during the AGM.

cast by a member, any subsequent change shall not be allowed.

Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

and e-voting during the AGM.

(https://instavote.linkintime.co.in)

The Shareholders are hereby requested to note that:

date i.e. Friday, September 22, 2023.

request at e-voting@linkintime.co.in.

cast their vote again.

0562-4054400.

of the Company.

the Shareholders at a common venue.

documents are available at the Company's website (www.sabrimala.co.in) and

read with circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular").

"IMPORTANT"

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers

Whilst care is taken prior to

make necessary inquiries before sending any monies or

MATIONAL SEEDS CIN No.U74899DL1963GOI003913 RO: Block-AQ, Plot -12, Sector-5,

E-mail: nsc.kolkata.ro@gmail.com सं:- अपि - 08|BBSR-TCL-EQP|/एस.एस.सी. : बोल/2023-24/ दिलांब : 06-09-2023 नोटिस Short Term e-Tender Notice for Enhancement of existing transformer capacity at NSC, Bhubaneswar (Supply, Installation & Commissioning for arranging Power Supply to the extended load of Tissue Culture Lab at NSC, Bhubaneswar along with all necessary allied approval from concerned Electricity Department. For details, please visit NSC's website www.indiaseeds.com under Public Notice (Tender/Quotations). Online Bids for above tender must be

CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking-

Salt Lake, Kolkata-700 091

Ph. 033-2367-1077 / 74,

Mini Ratna Company)

E

FORCE

submitted at NSC e-Portal https://indiaseeds.enivida.com atest by 14:30 Hrs. of 12-09-2023 Corrigendum / addendum, if any, shall only be published in NSC's website. क्षेत्रीय प्रबंधक एन.एस.सी., कोलकाता entering into any agreements

acting on an advertisement in

with advertisers or otherwise

any manner whatsoever.

FORCE MOTORS LIMITED

CIN: L34102PN1958PLC011172

Registered Office: Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune - 411 035. Tel: +91 20 27476381 E-mail: compliance-officer@forcemotors.com Website: www.forcemotors.com

NOTICE OF 64TH ANNUAL GENERAL MEETING. RECORD DATE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 64th Annual General Meeting (the 'AGM') of the Members of Force Motors Limited will be held on Thursday, the 28th day of September 2023 at 3:00 p.m., through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), in compliance with the Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, Circular No.17/2020 dated 13th April 2020, Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021, Circular No. 2/2022 dated 5th May 2022 and Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the 'MCA Circulars'), the Securities and Exchange Board of India, Circular dated 5th January 2023 (the 'SEBI Circular'), the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations'); to transact the business as

set out in the AGM Notice. In pursuance to the MCA Circulars and the SEBI Circular, the Notice of calling the AGM and the Annual Report 2022-23 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants (DPs). The AGM Notice and the Annual Report 2022-23, has been uploaded on the website of the Company at www.forcemotors.com, on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository

Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. The business as set out in the AGM Notice may be transacted through remote e-voting and the e-voting at the AGM. The documents as referred to in the Notice of the said AGM are open for inspection on the website of the Company viz. www.forcemotors.com

If the dividend, as recommended by the Board of Directors of the Company,

is declared at the AGM, payment of such dividend subject to Tax Deducted

at Source ('TDS') will be made within the statutory limit of 30 days from the date of AGM. Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the Members and the Company is required to deduct TDS from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income-tax Act, 1961. The Members are requested to furnish prescribed documents on the portal of the RTA, Link Intime India Private Limited on or before 5.00 p.m. (IST) on Thursday, 21st September 2023, in order to enable the Company to determine and deduct appropriate TDS / withholding tax. The Members holding shares in electronic mode are requested to inform any changes relating to their name, address, mobile number, PAN, mandates, nominations, power of attorney, bank details along with requisite proofs to their respective DPs. The Members holding shares in physical form can register / update the above details by writing or by an e-mail to the Company's RTA M/s. Link Intime India Private Limited at sandip.pawar

@linkintime.co.in together with valid proofs, in order to receive the dividends directly in their bank accounts. RECORD DATE: Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act, and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Company has fixed Thursday, 21st September 2023 as the 'Record Date' for the purpose of determining

the Members eligible to receive dividend, if declared at the AGM. E-VOTING: Notice is further given that pursuant to Section 108 of the Act. read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the facility to cast votes through the remote e-voting is provided to the Members, through

In this regard, the Members are hereby further notified that: (1) Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the AGM may be transacted through remote e-voting and e-voting at the AGM. (2) Remote e-voting shall commence from Monday, 25th September

NSDL platform, on all the resolutions set out in the Notice.

2023 at 5.00 p.m. (IST).

the AGM.

(3) Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, 27th September 2023 and the same shall be disabled by the NSDL for voting thereafter. (4) A person whose name is recorded, in the Register of Members or in the

2023 at 9.00 a.m. (IST) and will end on Wednesday, 27th September

Register of Beneficial Owners as maintained by the DPs, as on Thursday, 21st September 2023 i.e. on cut-off date, shall only be entitled to vote through remote e-voting facility or at the AGM. (5) Persons who acquire the shares of the Company and become Members of the Company after sending of Notice of the AGM and hold shares as on the cut-off date i.e. Thursday, 21st September 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or

sandip.pawar@linkintime.co.in or compliance-officer@ (6) Member may participate in the AGM even after exercising his/ her right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in

(7) The facility for e-voting at the AGM would be made available for the Members attending the AGM and who have not already cast their vote by remote e-voting.

(8) In case of any query / grievance regarding e-voting, kindly contact the following persons or refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting manual available at downloads section at www.evoting. nsdl.com

(a) Ms. Prajakta Pawle, Officer. National Securities Depository Limited, Trade World, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013.

e-mail ID: evoting@nsdl.co.in Contact no. +91 22 2499 4561 (b) Mr. Nikhil Deshpande, Company Secretary & Compliance Officer

Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune - 411 035. e-mail ID: compliance-officer@forcemotors.com Contact no.: +91 20 2747 6381

Members who have not registered their e-mail address and mobile number or who are holding shares in physical form, are requested to register the same with the Company by writing an e-mail to complianceofficer@forcemotors.com or sandip.pawar@linkintime.co.in along with scanned copy of the self-attested PAN in order to receive copies of the Annual Report 2022-23 along with the Notice of 64th AGM.

Please keep your most updated e-mail ID registered with the Company

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM and the manner of casting vote through e-voting.

Nikhil Deshpande

Whole Time Director DIN: 08221979

NOTICE FOR THE ATTENTION OF MEMBERS OF THE

Remote e-voting and e-voting during AGM:

Information and instructions comprising manner of voting, including

5:00 pm. IST on Thursday, Sept 28, 2023 The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by

e-voting will be able to vote electronically ("Insta Poll") at the AGM.

Members holding shares in dematerialized mode, who have not

Members are requested to note the following contact details for Mr. S.V Raju, Vice President

Joining the AGM through VC/OAVM:

FCS No.: 7247

By order of Board of Directors

Date: 05-09-2023 New Delhi

Tel: +918108116767; Email id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in For Shemaroo Entertainment Limited

Date: 06 Sept. 2023 **Company Secretary & Compliance Officer** KNR CONSTRUCTIONS LIMITED

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

eferred to as 'MCA Circulars') read with read with SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023('SEBI Circulars'). The AGM Notice and the Annual Repor

of CDSL - www.cdslindia.com.

share capital of the Company as on the said cut-off date.) Sending of all Notices through e-mail was completed by the Company on $04^{
m u}$ September, 2023.

by the Company and whose names appear in the Register of Members as on the cut-off

email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

investors@knrcl.com. Place : Hyderabad

Haritha Varanasi Company Secretary & Compliance Officer

your DP to receive timely communications. per Equity Share of Rs. 2/- each for the financial year ended 31" March, 2023. If approved, the payment of dividend shall be

Pune

7th September 2023

Sd/-

Tapan Jain

By Order of the Board of Directors For FORCE MOTORS LIMITED

Force Motors Limited.

Company Secretary & Compliance Officer

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032, India

15\$



दे स्टेट ट्रेडिंग कॉपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) (CIN: L74899DL1956GO1002674) : जवाहर व्यापार मवन, 1 टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001

टेंडर रेफरेंसः एसटीसी/सीओ/बीएलडी-ई/एफ01155/2023/डी-4040/1 दिनांकः 06.09.2023 निविदा आमंत्रण नोटिस जवाहर व्यापार भवन, एसदीसी नई दिल्ली में पूंजी और राजस्व कार्यों के लिए पीएमसी की नियुक्ति हेत् निविदा

जेम बिड नंबर: जेम / 2023 / बी /3921385 केंद्रीय / राज्य सरकारी एजेंसियों से नई दिल्ली में विभिन्न पूंजीगत और राजस्व कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में नियुक्ति के लिए बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी अनुमानित लागत 12 करोड़ रुपए है। विवरण के लिए वेबसाइट www.stclimited.co.in या www.gem.gov.in पर देखें। टेंडर के सम्बन्ध कोई भी संशोधन उपरोक्त वेबसाइटों पर ही अपलोड किया जाएगा। निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 28.09.2023 (1400 घंटे भारतीय मानक समय) है।

SHASHANK TRADERS LIMITED

(CIN: L52110DL1985PLC021076) Registered office: 702-A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road,

Connaught Place, New Delhi -110 001 E-mail ld: info@shashankinfo.in Website: www.shashankinfo.in

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company has on September 06, 2023 completed the dispatch of the notice of the 38th Annual General Meeting to be held on Thursday September 28, 2023 at 03.00 p.m. at Registered office of the Company situated at 702-A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaugh Place, New Delhi by providing the facility of electronic voting to its members for seeking consent of Members for the item as stated in the notice of Annual General Meeting dated September 04.

- The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 22, 2023 to Thursday, September 28, 2023 (both days inclusive) for the purpose of this Annual General Meeting.
- Members can vote through electronic means. The Voting will commence on Monday September 25, 2023 at 09:00 a.m. and ends on Wednesday, September 27, 2023 at 05:00 p.m. Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote evoting shall be able to exercise their right at the Annual General Meeting by poll / physica
- The members who have acquired the shares after the dispatch of the Notice shall be eligible for voting through electronic mode by obtaining login Id and password after logging on www.evotingindia.com. The notice is also available on the website of the Company at
- The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time as mentioned A member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his right to
- vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficia owners maintained by the depositories as on the cut-off date (i.e. Thursday, September 21.
- The Notice of Annual General Meeting will be available on www.shashankinfo.in and on the portal of the Stock Exchanges where the securities are listed. Any members require physical copy of the notice they can send a requisition on the registered office address of
- the Company situated at 702-A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110 001. Mr. Praveen Jain, Chairman & Managing Director of the Company is responsible to address the grievances connected with facility for voting by electronic means and all the correspondence to that effect shall be addressed at registered office address: 702-A,

Date: September 07, 2023

DIN - 01776424 Chairman & Managing Director

For Shashank Traders Limited

तारिणी एण्टरप्राईजेज लिमिटेड

(CIN: L51101DL2006PLC148967)

पंजी. कार्यालय: 3/14 ए, 1ला तल, विजय नगर, डबल स्टोरी, दिल्ली-110009 फोन: 011-32601237, मोबाईल: 9811024165.

ई-मेलः tarinienterprisespvtltd@gmail.com,

17वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग की जानकारी,

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानो भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में एतदुद्वारा नोटिस दिया जाता है कि एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनुसार व्यवसाय के निष्पादन के लिए तारिणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ('कंपनी' के सदस्यों की सत्रहवाँ (17वीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार 30 सितम्बर, 2023 को अपराह्न 3.00 बजे (भा.मा.स.) आयोजित की जाएगी।

परिपत्रों के अनुपालन में, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा गया है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए')/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। सभी सदस्यों को एजीएम नोटिस ईमेल करने का काम 6 सितंबर, 2023 को पूरा हो चुका है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.tarinienterprises.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी www.msei.in और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड 'एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

ईमेल पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता मैंडेट को पंजीकृत∕अद्यतन करने का तरीका जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत हैं, वे एजीएम नोटिस में दिए गए रिमोट ई–वोटिंग के निर्देशों का पालन कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार इसे

भौतिक मोड में कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट-स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को या ते स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153/ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020, फोनः 011-40450193-97 पर उनके कार्यालय में या ईमेल द्वारां admin@skylinerta.com पर सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर -1 प्रदान करें। उक्त फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.tarinien terprises.in पर उपलब्ध है।

कंपनी के इक्विटी शेयर डीमटेरियलाइज्ड रूप में रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकृत / अपडेट करें।

रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों और सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुसार, सदस्यों को एजीएम नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई–वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है किः

्सदस्य(यों) का मतदान अधिकार कट–ऑफ तिथि यानी शनिवार 23 सितंबर, 2023 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, शनिवार 23 सितंबर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल उसे ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने का अधिकार होगा।

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी शनिवार 23 सितंबर, 2023 को शेयर रखता है, वह अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करके evoting@nsdl.co.in या info@skylinerta.com पर ई-मेल भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकत है तो वोट डालने के लिए मौजदा यजर आईडी और पासवर्ड का

रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी और शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस अवधि के दौरान, भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम में दोबारा वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और तरीके और एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम नोटिस में दिए गए हैं और कंपनी की वेबसाइट www.tarinienterprises.in पर एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथ e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी

शिकायतों का समाधान भी करेगा। निदेशक मंडल ने एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की प्रक्रिया और एजीएम से पहले निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित रिमोट ई-वोटिंग की जांच के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सुश्री लवलीन गुप्ता (एफसीएस नंबर 5287) को 'स्क्रूटिनाइजर' के रूप में नियुक्त किया है। परिणाम एजीएम के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे और इसे, समेकित

स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट www.tarinienterprises.in. एनएसडीएल पर www.evoting.nsdl.com पर रखा जाएगा और बीएसई लिमिटेड को www.bseindia.com पर सूचित किया जाएगा।

). एजीएम के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक रविवार, 24 सितंबर, 2023 से शनिवार, 30 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

> निदेशक मंडल के आदेश से तारिणी एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिये

> > प्रियंका देवी

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः ०६ सितंबर, २०२३

स्थानः दिल्ली तिथि: 6.9.2023



ओमेक्स लिमिटेड

रजि. कार्यालयः 19—बी, प्रथम तल, ओमेक्स सेलिब्रेशन मॉल, सोहना रोड, गुड़गांव-122 001, (हरियाणा) कॉर्पोरेट कार्यालय : ओमेक्स हाउस, 7, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कालकाजी, नई दिल्ली-110019

फोन: 91-11-41893100, फैक्सरू 91-11-41896653 ईमेल secretarial 1@omaxe.com, वेबसाइटः www.omaxe.com, सीआईएनः L74899HR1989PLC051918

34वीं वार्षिक आम बैठक, ई—वोटिंग सूचना और पुस्तक बंद करने की सूचना कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") एवं उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सुचीबद्धता विनियम") के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनपालनार्थ,यह सचना दी गई है कि ओमेक्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल साधन ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, उक्त एजीएम आयोजन के नोटिस में निर्दिष्टानुसार सामान्य और विशेष कार्यवाही करने के लिए आयोजित होने वाली है।

एमसीए परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20 / 2020 दिनांक 5 मई 2020, 22 / 2020 दिनांक 15 जून 2020, 33 / 2020 दिनांक 28 सितम्बर 2020, 39 / 2020 दिनांक 31 दिसम्बर 2020, 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, 10 / 2021 दिनांक 23 जून 2021 20 / 2021 दिनांक 8 दिसम्बर 2021, 21 / 2021 दिनांक 14 दिसम्बर 2021 02 / 2022 दिनांक 5 मई 2022, 03 / 2022 दिनांक 05 मई 2022, 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और 11 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 तथा सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021, 13 मई , 2022 और 5 जनवरी, 2023, और ऐसे अन्य परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") और ("सेबी परिपत्र") जो इस संबंध में एमसीए और / या सेबी द्वारा जारी किए जा सकते हैं, के प्रावधानों के अनुपालन में, वित्तीय विवरणों के साथ एजीएम की सूचना (31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड) जिसमें अनुसुचियां और निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट और ई—वोटिंग तथा एजीएम में भागीदारी के निर्देश शामिल है, उसे इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजे गए हैं जिनकी ईमेल आईडी उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार कंपनी / डिपॉजिटरी / आरटीए के पास उपलब्ध हैं। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 06 सितंबर, 2023 को पूरा हो गया है। वित्त वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 34वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.omaxe.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और लिंक इनटाइम प्राइवेट वेबसाइट

URL:https://instameet.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है।

कंपनी ने सभी सदस्यों को रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("एलआईआईपीएल") को नियुक्त किया है ताकि वे एजीएम के नोटिस में उल्लिखित प्रस्तावों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। सदस्यों का मतदान अधिकार कट—ऑफ / रिकॉर्ड तिथि, शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 ("कट—ऑफ तिथि") पर सदस्यों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होगा। एक व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वह ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने और बैठक में भाग लेने का हकदार होगा।

एलआईआईपीएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार जब शेयरधारकों द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है, तो उन्हें बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सुविधा के माध्यम से दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोई भी व्यक्ति,जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह instameet@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर या 022–49186175 पर संपर्क करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया के लिए कृपया ई–वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश देखें जो आपके मतदान अधिकार का प्रयोग करने से पहले 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का हिस्सा है। किसी भी प्रश्न के मामले में,आप वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in के सहायता और एफएक्यू अनुभाग के तहत उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष—इवोटिंग, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी–101, पहली मंजिल, 247 पार्क, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विक्रोली (पश्चिम) मुंबई, महाराष्ट्र—400083, मोबाइल नंबर 8655326100, ईमेलः enotices@linkintime.co.in से संपर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित शिकायतों का समाधान करेगा। सदस्य कंपनी सचिव को

जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीक त नहीं की है, उनसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में हमारे आरटीए को delhi@linkintime.co.in या investors@omaxe.com पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन कॉपी और शेयर प्रमाणपत्र की प्रति प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित स्कैन कॉपी के साथ वैध ईमेल आईडी को अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीक त करने का अनुरोध किया जाता है। जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल आईडी, मोबाइल नंबर, डाक पता और बैंक खाता विवरण पंजीकृत किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने के मामले में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करके या हमारे आरटीए लिंक इनटाइम इंडिया से संपर्क करके अपने पंजीकृत विवरण को सत्यापित / अपडेट करें।

की एजीएम के लिए 'इवेंट'का चयन

|कर सकते हैं। जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, वे https://instameet.linkintime.co.in पर आरटीए से संपर्क कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खुलेगी और सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी। जो सदस्य 34वीं एजीएम के दौरान प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें 26 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे (भा मा स) से लेकर 28 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे तिक (भा मा स) तक अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से अपना नाम, डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए ईमेल आईडी investors@omaxe.com पर अपना अनुरोध भेजकर या https://www.webex.com/downloads.html / लिंक पर क्लिक करके वेबेक्स एप्लिकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करके एक वक्ता के रूप में खद को पंजीकृत करना होगा। जिन सदस्यों ने खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें ही समय की उपलब्धता के आधार पर 34वीं एजीएम के दौरान प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, यह अनुरोध है कि बैठक के समय प्रश्न सटीक और संक्षिप्त रूप से उठाएँ ताकि हम उसका उत्तर दे सकें। कंपनी एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शनिवार, 23 सितंबर 2023 से शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक वार्षिक आम बैठक और वार्षिक समापन के संबंध में बंद रहेंगे। बोर्ड के आदेशानुसार

कृते ओमेक्स लिमिटेड हस्ता /-विकास खंडेलवाल

इन्टीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड पंजी. कार्यालय: 606, नई दिल्ली हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001

CIN: L74899DL1993PLC051981

वीसी/ओएवीएम द्वारा 30वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन की सार्वजनिक सचना

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 30वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 के 10.00 बजे पूर्वाः आईएसटी में कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 तथा उसके अंतर्गत जारी सर्क्युलर्स के अनुपालन में विडियो कान्फ्रेंस (''वीसी'')/ अन्य आडियों विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित होगी जिसमें उक्त सभा के आयोजन की सचना में वर्णित साधारण एवं/अथवा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। उपरोक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में एजीएम सूचना तथा वित्त वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त, के वार्षिक रिपोर्ट की

इलेक्टानिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास सचीबद्ध हैं. को भेज यह कम्पनी सचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा

रही है। ई-वोटिंग से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं: एजीएम सूचना में वर्णित व्यवसायों को इलेक्ट्रानिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जायेगा

रिमोट ई- वोटिंग 27 सितम्बर, 2023 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी। रिमोट ई-वोटिंग 29 सितम्बर, 2023 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी।

इलेक्ट्रानिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 23 सितम्बर

यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सुचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है तथ कट-ऑफ तिथि अर्थात-23 सितम्बर, 2023 को शेयर धारित करता है तो वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकता है

सदस्यगण ध्यान रखें किः क) उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग पद्धत्ति एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जाएगी तथा प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद सदस्य को उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी ख) एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर दिये हों, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं किन्तु फिर से मतदान के लिए अधिकृत नहीं होंगे घ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोर्ग स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा. वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की दोनों सविधाए प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।

एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.raas.co.in तथा एनएसडीएल की वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्य https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में सदस्य के लिये frequently asked questions (FAQs) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा टोल फ्री नं 1800222990 पर कॉल करें अथवा delhilinkintime.co.in पर आरटीए को अथवा contact@raas.co.in. पर कम्पनी को ईमेल करें।

सदस्यों का रजिस्टर बंद होना तदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 24.09.2023 से 30.09.2023 (दोने दिवस तक) ऊपर वर्णित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाने वाली 30वीं वार्षिक आम सभा के समय में बंद रहेंगे।

कत्ते. इन्टीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड तिथि: 6.9.2023 हस्ता/- विनोद सिंह स्थान: नर्ड दिल्ली कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एनबीसीसी प्लाजा, टॉवर—।।, चतुर्थ तल, पुष्प विहार, सेक्टर—5, साकेत, नई दिल्ली—110017 वेबसाइट : www.pncinfratech.com, ईमेल : complianceofficer@pncinfratech.com

24वीं वार्षिक आम बैठक, बही समापन, लाभांश हेतू अभिलेख तिथि

तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतदद्वारा कंपनी के सदस्यों और सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि कंपनी की 24वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), शुक्रवार 29 सितंबर 2023 को अप. 01.00 बजे (आईएसटी) को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजअल संसाधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जायेगी, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली ('अधिनियम') के प्रयोज्य प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमाली 2015 (''सूचीबद्धता विनियमावली'') के प्रावधानों, जो कि 28 दिसंबर 2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ('एमसीए') द्वारा निर्गत समस्त अन्य प्रयोज्य परिपत्रों तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा निर्गत परिपत्र सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक जनवरी 2023 के साथ पठित है, के अनुपालन में, किसी साधारण स्थान पर अंशधारकों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना, एजीएम की सूचना (एजीएम सूचना) में निर्धारितानुसार व्यवसाय का संचालन करने के लिये किया जायेगा।

https://www.pncinfratech.com/financials.html पर, मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (लिंक इनटाइम/''आरटीए'') की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी

समय—समय पर संशोधितानुसार कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों सूचीकरण विनियमावली के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने शेयरधारकों को एजीएम स्थल (अर्थात रिमोट ई–वोटिंग) के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी एजीएम के दौरान उन शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा भी देगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपने वोट नहीं डाले हैं। कंपनी ने एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग प्रदान करने के लिए लिंक इनटाइम के साथ एक व्यवस्था

अधिनियम की धारा 91, उसके अंतर्गत विरचित नियमावली और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 ('सूचीकरण विनियमन' के विनियमन 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की पंजिका और अंश अंतरण बहियां शनिवार 23 सितंबर 2023 से लेकर शुक्रवार 29 सितंबर 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक, कंपनी की उक्त एजीएम के प्रयोजन के लिये बंद रहेंगी।

डीआर एसोसिएट्स (सदस्यता संख्या एफसीएस 5339; सीपी संख्या 4629) के पार्टनर कंपनी सचिव श्री दीपक गृप्ता को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की जांच करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है। मतदान का परिणाम एजीएम के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर यानी 01 अक्टूबर, 2023 को या इससे पहले घोषित किया जायेगा और समेकित स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम, कंपनी की वेबसाइट (www.pncinfratech.com) और लिंक इनटाइम की वेबसाइट (https://instavote.linkintime.co.in) पर रखे जाएंगे। शेयरधारकों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि :

क. एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 के अनुसार डिपॉजिटरी / आरटीए द्वारा अनुरक्षित सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में दर्ज है, केवल रिमोट ई-वोटिंग एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

ख. रिमोट ई-वोटिंग अवधि का प्रारंभ मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को प्रातः 09.00 बजे होगा तथा समापन गुरुवार 28 सितंबर 2023 को सायं 5.00 बजे होगा। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, एजीएम सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की अनुमति 28 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, बाद में उसे इसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग. शेयरधारकों का मतदान अधिकार कट—ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 22 सितंबर 2023 को कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा। घ. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपने वोट नहीं डाले हैं और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, तो वे एजीएम के

दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे। ड. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डाले हैं, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबारा

वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। व. कोई भी व्यक्ति, जो ईमेल द्वारा एजीएम सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 के अनुसार शेयर रखता है, वह अपने

वोट डालने के लिये एजीएम सूचना का संदर्भ ले सकता है तथा e-voting@linkintime.co.in पर एक अनुरोध भेजकर लिंक इनटाइम से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। छ. यदि शेयरधारकों / सदस्यों के पास एजीएम / ई—वोटिंग में भाग लेने के संबंध में

कोई प्रश्न है, तो वे https://instavote.linkintime.co.in पर सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और इंस्टावोट ई—वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष-ई-वोटिंग, एड्रेस-लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विखोली पश्चिमी, मुंबई—400083 से फोन : +91 22 49186000 या ई-मेल : **enotices @linkintime.co.in** पर संपर्क करें या compliancesofficer@pncinfratech.com पर ई-मेल लिखकर नीचे हस्ताक्षरकर्ता से फोन नं. 0562-4054400 पर संपर्क करें।

ज. कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये रु. 2/— प्रत्येक के प्रति समता अंश 25 प्रतिशत अर्थात् रु. 0.50 / – (रुपये पचास पैसे मात्र) की दर से लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिये शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को "रिकॉर्ड तिथि" निर्धारित की है। यदि अनुमोदित हो, तो लाभांश का भुगतान शनिवार 28 अक्टूबर 2023 को या इससे पहले किया

> कृते पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड तपन जैन

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी (स. सं: ए22603)

ROLLATAINERS LIMITED CIN: L21014HR1968PLC004844

Regd. Off.: Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera, District- Rewari Rewari 123106 Phone: 01274-243326, 242220, E-mail: cs.rollatainers@gmail.com; Website: www.rollatainers.in

NOTICE OF 52ND ANNUAL GENERAL MEETING. E VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given to the Members of Rolltainers Limited ["Company"] that the 52nd Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Saturday, 30th September 2023 at 11:00 P.M. at the Registered Office of the Company at Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera, District- Rewari 123106, to transact the businesses as set out in the notice of AGM.

In compliance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), the electronic copies of Notice of the AGM alongwith the Annual Report for the Financial Year 2022-23 have been sent to shareholders whose name appear in the register of members as at the closing hours of business on Friday, 01st September 2023 and whose email address are registered with the depository participants or with the Company or M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limied, Registrar & Share Transfer Agent, the emailing of the said documents has been completed on Wednesday, 06th September 2023.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant applicable rules, as amended and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 24, 2023 to September 30, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 52nd AGM of the Company.

Further the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at 52nd Annual General Meeting (AGM) by electronic means ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (herein after referred as "CDSL") as agency to provide remote e-voting facility.

Members of the Company holding shares either in physical form or in demateialized form, along with person whose names recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date of 23rd September 2023 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as

Further, The Company has appointed Mr. Sachin Khurana, Proprietor of M/s S. Khurana & Associates, Practicing Company Secretary (COP- 13212) to act as the Scrutinizer for conducting the e-voting process/ballot process in a fair and transparent manner. The result of remote e-voting and voting during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of AGM. The declared results along with Scruitinizer's Report shall be placed on the website of the Company at www.rollatainers.in and also on the websites of Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange of India on which the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

The Notice of AGM and Annual Report 2022-23 is available at company's website at www.rollatainers.in and CDSL website www.evotingindia.com and also at BSE Website i.e www.bseindia.com and NSE website i.e. www.nseindia.com.

For the detailed instructions pertaining to remote e-voting, Members may refer in the section 'Notes' in the Notice of the 52nd AGM.

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting held in physical mode but shall not be entitled to cast their vote again at the If you have any queries or issues regarding E-Voting you can write an email to

helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 02223058738 and 022-23058542/43. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and and in particular, instructions for joining the AGM, the manner of casting vote through Remote E-Voting or voting during the AGM.

For ROLLATAINERS LIMITED

DIN: 09725308

MANISHA GOEL Date: 06/09/2023 Whole Time Director

#

Place: New Delhi

शारिका एण्टरप्राईजेज लिमिटेड पंजी.कार्यः: एस-550-551, स्कूल ब्लॉक पार्ट-2, वेलकम प्लाजा, शकरपुर, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली-110092

CIN:L51311DL1998PLC093690 website: www.sharikaindia.com | Email: info@sharikaindia.com

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी की 25वीं वार्षिक आम सभा गरुवार 28 सितम्बर, 2023 को 3,00 बजे अप. में असाधारण सर्क्यलर नं. 20/2020 तिथि 5 मई. 2020. 10/2022 तिथि 28 दिसम्बर. 2022. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी **सर्क्युलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2**022/62 **तिथि** 13 मर्ड. 2022. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/सीआईआर/पी/2023/4 तिथि 5 जनवरी. 2023 के साथ एमसीए तथा सेबी द्वारा इस संदर्भ में जारी लागू होने वाले अन्य सर्क्युलर्स के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमयन बोर्ड ('सेबी') (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में विडियों कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियों विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें सभा की सचना तिथि 10 अगस्त, 2023 में

उपरोक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में वित्त वर्ष 2022-23 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम सुचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऐसे सभी शेयरधारकों को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास सुचीबद्ध है। सेन्टल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के प्लेटफार्म पर कम्पनी ने 25वी वार्षिक आम सभा

की सचना में वर्णित सभी व्यावसायिक मदों को निष्पादित करने के लिये ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्टॉनिक मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई है। सदस्य सभा के किसी अन्यत्र स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (''रिमोट ई-वोटिंग'') का उपयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरु होगी तथा बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जायेगी।

जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 को सदस्यों/लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, केवल वे हीं रिमोट ई-वोटिंग/सभा मे ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे सभा में शामिल हो सकते हैं किन्तु सभा

यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते है तथा कम्पनी का सदस्य बनते है वे कम्पनी के रजिस्टर तथा अंतरण एजेन्ट्स मै. स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, डी-153ए, 1ला तल, ओखला, इंडिस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 से रिमोट ई-वोटिंग के लिये यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। युजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया सभा की सुचना में भी दी गई है जो कम्पनी की वेबसाईट www.sharikaindia.com स्टॉक एक्स्चैंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। ई–वोटिंग के परिणामों की घोषणा कम्पनी की वार्षिक आम सभा में अथवा उसके बाद की जाएगी। पर्यवेक्षक के

रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कम्पनी तथा सीडीएसएल की वेबसाईट पर सदस्यों की जानकारी के लिये स्थापित किया जायेगा तथा साथ हीं उसकी सूचना स्टॉक एक्स्चैंजों को दी जाएगी। सचना तथा कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.sharikaindia.com पर उपलब्ध है। यदि एजीएम में उपस्थित होने तथा ई-वोटिंग से संबंधित आपका कोई प्रश्न अथवा समस्या हो तो आप सहायता खंड के अंतर्गत www.evoting@cdslindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs")

तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें अथवा टोल फ्री नम्बर 1800225533 पर सम्पर्क करें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से संबंधित किसी भी समस्या के लिये कृपया श्री राकेश डाल्वी, प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई–400013 से सम्पर्क करें। पनः एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रिजस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शुक्रवार, 22

सितम्बर, 2023 से गुरुवार, 28 सितम्बर, 2023 (दोनो दिवस सहित) तक वार्षिक आम सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

तिथि: 06 सितम्बर, 2023 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सुप्रीम कमर्शियल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड

CIN: L51909DL1983PLC016724, PH NO: 9350150766 EMAIL ID:-supremecommercial@gmail.com

पंजीकृत कार्यालय- वाई-4-A-C, लोहा मण्डी, नारायणा, नई दिल्ली- 110028

उन्तालीसवीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना, रिमोट ई—वोटिंग की जानकारी एतद्व्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि सुप्रीम कमर्शियल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की उन्तालीसवीं वार्षिक साधारण बैठक एजीएम की सूचना में वर्णित सामान्य व्यवसायों के निष्पादन हेतु शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को प्रातः 11:30 बजे 35, लिंक रोड, द्वितीय मंजिल, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-110024 में आयोजित की जायेगी। सदस्यों को वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना एवं ई-वोटिंग प्रक्रिया को भेजने का कार्य 6 सितम्बर, 2023 को पुरा कर लिया गया है।

विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के प्रावधानों केअनुसरण में कम्पनी के सदस्यों का पंजिका एवं शेयर हस्तांतरण किताबें 24 सितम्बर, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 एजीएम के उदेश्य हेत बंद रहेंगी। बैतक में किये जाने वाले व्यवसाय से सम्बन्धित प्रसांगिक दस्तावेज कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में रिववार और अवकाश दिवसों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे बैठक की तिथि तक निरीक्षण के लिए खुले हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 108 साथ में पठित कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन)

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 91 एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं)

नियमों, 2014 यथासंशोधित एवं सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2014 के विनियमन 44 के अनुसरण में पुनः सूचना प्रदान की जाती है किः 1. कम्पनी सदस्यों को नेशनल डिपॉजटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के द्वारा ई-वोटिंग की सुचिधा प्रदान करा रही है ताकि वे एजीएम की सूचना में में उल्लिखित मदों पर स्वचालित रूप से अपना वोट दे सकें। कम्पनी श्री राकेश कुमार, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस-7695 एण्ड सी० पी० न० 8553), प्रोपराईटर ऑफ

मैसर्स आर० के० एण्ड एसोसियेट्स, कार्यरत कम्पनी सचिव को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तारीके से संचालन के लिए जाँकर्ता के रूप में नियुक्त किया 2. ई-वोटिंग की अवधि बधवार, 27 सितम्बर, 2023 को प्रातः 09:00 बजे से प्रारम्भ होकर शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 सायं 05:00 बजे पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि यानि 23 सितम्बर, 2023 को भौतिक एवं अथवा डीमैट प्रपत्र में शेयर धारित कम्पनी के सदस्य स्वचालित रूप से अपना वोट दे सकते हैं। उसके अलावा

एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को पोल/टैब वोटिंग के माध्यम से वोट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। हालाँकि जो सदस्य एजीएम से पहले मिोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे चुके हैं, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट देने के हेदार

एक व्यक्ति जिसकस नाम सदस्यों/लाभदाई स्वामी की पंजिका में कट-ऑफ तिथि यानि शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 को अंकित होगा केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की स्विधा के साथ एजीएम में वोटिंग का हकदार होगा। 4. किसी भी व्यक्ति ने कम्पनी के शेयर्स अधिग्रहित किये हों और सूचना को भेजने के

बाद कम्पनी कर सदस्य बना हो और कट-ऑफ तिथि यानि शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 को शेयर धारण करता हो, लॉगइन साख प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in 5. एक सदस्य ई-वोटिंग द्वारा अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक

साधारण बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन बैठक में फिर से वोट देने की अनुमति 6. सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.supremecommercial.co.in पर उपलब्ध है। जो सदस्य

कृते सुप्रीम कमर्शियल इनटरप्राईजेज लिमिटेड

Date: 05.09.2023 इशिका गर्ग कम्पनी सचिव

इस सम्बन्ध में कोई जानकारी चाहते हैं अथवा किसी भी प्रश्न के लिए कम्पनी को

supremecommercial@gmail.com जल्दी से जल्दी लिख सकते हैं ताकि प्रबन्धन

www.readwhere.com

2023) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting

Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110 001 and info@shashankinfo.in. Place: New Delhi

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिये कंपनी की एजीएम बक क्लोजर. रिकॉर्ड तिथि सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, बुधवार 6 सितंबर 2023 को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन ई—वोटिंग की अवधि मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे शेयरधारकों को ईमेल द्वारा भेज दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और (आईएसटी) शुरू होगी और गुरुवार,28 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे शेयर ट्रांसफरएजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड / डिपॉजिटरी प्रतिभागी (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए ई–वोटिंग मॉड्यूल के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम सूचना सहित उक्त वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट

investors@omaxe.com पर भी लिख सकते हैं।

सदस्य अपने रिमोट ई—वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके और https://instameet.linkintime.co.in / पर वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पूनः प्राप्त

कंपनी सचिव मोबाइल नं.: ए 18475

स्थान : आगरा

दिनांक : 6 सितंबर, 2023

Place: Delhi

जानकारी तैयार रख सके।